



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1982/माघ 19, 1903  
No. 23] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1982/MAGHA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
(सड़क पक्ष)  
संकल्प

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1982

सं. पी. एल.-80(36)/81.—राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य निष्पन्न करने के लिए एजेंसी प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करने और इस प्रणाली के परिणामों में सुधार लाने के उपायों का सुझाव देने के विचार से सरकार ने एक समिति बनाने का निश्चय किया है। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

1. श्री श्री. वी. बोहरा  
अध्यक्ष,  
नेशनल कमिटी आन एन्वायरन्मेंटल प्लानिंग,  
पर्यावरण विभाग,  
नई दिल्ली. —अध्यक्ष
2. श्री. गोविन्दर सिंह,  
महानिदेशक (सड़क विकास) और  
अतिरिक्त सचिव,  
नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
(सड़क पक्ष) नई दिल्ली. —सदस्य

3. श्री प्रकाश नारायण,  
सलाहकार (परिवहन),  
योजना आयोग, नई दिल्ली. —सदस्य
4. श्री एस. एस. शुक्ल,  
संयुक्त सचिव (विस्तीय सलाहकार)  
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,  
नई दिल्ली. —सदस्य
5. श्री के. के. सरिन,  
सचिव राजस्थान सरकार,  
लोक निर्माण विभाग,  
जयपुर. —सदस्य
6. श्री के. सी. रेड्डी,  
प्रबन्ध निदेशक,  
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.  
बंगलौर. —सदस्य
7. श्री पी. सी. भसीन,  
अतिरिक्त महानिदेशक (पूल),  
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,  
(सड़क पक्ष) नई दिल्ली. —सदस्य-सचिव

## 2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होगा :—

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एजेंसी प्रणाली की समीक्षा, नए और उपयुक्त उपाय करने के विषयों पर नीचे लिखे स्थानों पर सुझाव देना :—

- (1) प्रशासनिक व्यवस्था ;
- (2) एजेंसी प्रभार ;
- (3) वित्तीय व्यवस्था ;
- (4) आयोजना का तकनीकी और वित्तीय अनुमोदन ;
- (5) आयोजनाओं का विशेष कर लागत और समय की दृष्टि से वास्तविक कार्यान्वयन/निष्पादन ;
- (6) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की आम स्थिति इन में श्रुतियां तथा सुधार करने के उपाय ; और
- (7) राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए अन्य मामलों पर मिफोरिश् उदाहरणतय राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ बस्ती बनने को रोकना अवधि निर्माण हटाना, प्राकृतिक सौंदर्य का विकास करना, द्रुत परिवहन के लिए विश्राम स्थलों की व्यवस्था करना आदि आदि ।

3. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा परन्तु समिति अपने कार्यों को सम्बन्धित जिन स्थानों पर जाना आवश्यक समझे वहां जाएगी । केन्द्रीय सरकार यह आशा करती है कि राज्य सरकारों और सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन समिति को सभी तरह की अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे और समिति जो सूचना मांगे वे उसे उपलब्ध कराएंगे ।

4. समिति अपनी रिपोर्ट, अपनी पहली बैठक की तारीख के 6 महीनों के अन्दर-अन्दर पेश करेगी ।

## आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां सभी राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों, योजना आयोग, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को भेजी जाए और यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ब्रिग. गोविन्दर सिंह, महानिदेशक  
(सड़क विकास) और अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT  
(Roads Wing)

## RESOLUTION

New Delhi, the 3rd February, 1982

No. PL-30(36)/81.—With a view to reviewing the functioning of the Agency System for the execution of the National Highway Works in the context of the present and future demands on the National Highway System and to suggest measures for improving the performance of the system, the Government have decided to set up a Committee with the following composition :

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Shri B. B. Vohra,                | ...Chairman |
| Chairman,                           |             |
| National Committee on Environmental |             |
| Planning,                           |             |
| Department of Environment,          |             |
| New Delhi.                          |             |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 2. Brig. Gobindar Singh,                  | ...Member           |
| Director General (Road Development)       |                     |
| and Additional Secretary,                 |                     |
| Ministry of Shipping and Transport,       |                     |
| (Roads Wing),                             |                     |
| New Delhi.                                |                     |
| 3. Shri Prakash Narain,                   | ...Member           |
| Adviser (Transport),                      |                     |
| Planning Commission,                      |                     |
| New Delhi.                                |                     |
| 4. Shri S. S. Shukla,                     | ...Member           |
| Joint Secretary (Financial Adviser),      |                     |
| Ministry of Shipping and Transport,       |                     |
| New Delhi.                                |                     |
| 5. Shri K. K. Sarin,                      | ...Member           |
| Secretary to the Government of Rajasthan, |                     |
| Public Works Department, Jaipur.          |                     |
| 6. Shri K. C. Reddy,                      | ...Member           |
| Managing Director,                        |                     |
| Karnataka Power Corporation Ltd.,         |                     |
| Bangalore.                                |                     |
| 7. Shri P. C. Bhasin,                     | ...Member-Secretary |
| Additional Director General (Bridges),    |                     |
| Ministry of Shipping and Transport,       |                     |
| (Roads Wing), New Delhi.                  |                     |

2. The Terms of Reference of the Committee will be as follows :—

To review the Agency System for National Highways as well as suggest remedial measures, with particular reference to :—

- (i) Administrative arrangements ;
- (ii) Agency Charges ;
- (iii) Financial arrangements ;
- (iv) Technical and financial approval of projects ;
- (v) Actual implementation/execution of the projects with particular reference to cost and time controls ;
- (vi) The general condition of the National Highways network in the country; its shortcomings and measures for improvement ; and
- (vii) Recommendations on other matters for the improvement of National Highways e.g. prevention of ribbon development alongside National Highways; removal of encroachments; improvement of aesthetics; provision of resting places for truck operators, etc.

3. The Headquarters of the Committee will be at Delhi but it will be free to visit all such places as it may consider necessary in connection with its work. The Central Government hope that the State Governments and Local Administrations concerned will afford the Committee all assistance it may require and will furnish any information which it may call for.

4. The Committee will submit its Report within a period of six months from the date of its first meeting.

## ORDER

Ordered that copies of the Resolution be communicated to all the State Governments and Local Administrations, the Planning Commission, and Central Road Research Institute and also that it be published in the Gazette of India for general information.

Brig. GOBINDAR SINGH, Director General  
(Road Development) and Addl. Secy.